



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 22 राँची, गुरुवार

25 पौष, 1936 (श०)

15 जनवरी, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

14 जनवरी, 2015

संख्या-1/पी0-103/2006 का.- 312- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची नगर निगम के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से. (नवप्रोन्नत) (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करने का निदेश दिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 22—50।